

चीन सीमा पर बनेंगी तीन सुरंग

चर्चा में क्यों?

2 अगस्त, 2023 को उत्तराखण्ड के लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडेय ने बताया कि भारत-चीन सीमा पर दो अलग-अलग घाटियों में स्थिति आईटीबीपी की दो चौकियों को आपस में जोड़ने और सीमांत क्षेत्र के लोगों को सुगम यातायात उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने दोनों घाटियों को सुरंग मार्ग से जोड़ने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है।

प्रमुख बिंदु

- इससे पथौरागढ़ के जौलगािकांग और चमोली के लपथल के बीच की दूरी 490 किलोमीटर से घटकर 42 किलोमीटर रह जाएगी। इसके लिये करीब 57 किलोमीटर की तीन सुरंगों और 20 किलोमीटर सड़क मार्ग बनाया जाना प्रस्तावित है। सामरिक महत्त्व की इस परियोजना पर अब केंद्र सरकार की ओर से निर्णय लिया जाना है।
- भारत-चीन सीमा में वर्तमान में कोई ऐसा सीधा मार्ग नहीं है, जो पथौरागढ़ के जौलगािकांग आईटीबीपी पोस्ट को चमोली के लपथल में आईटीबीपी पोस्ट से सीधे जोड़ता हो। सामरिक रूप से अति महत्त्वपूर्ण इन दोनों पोस्टों को 57 किलोमीटर की तीन सुरंगों का निर्माण कर 490 किलोमीटर की दूरी को कम किया जा सकता है।
- यह सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, सेना, एसएसबी एवं आईटीबीपी और पर्यटन की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है।
- राज्य सरकार ने केंद्र को भेजे अपने प्रस्ताव में राज्य के आर्थिक विकास, पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने और सीमावर्ती क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियों को बनाए रखने के साथ पलायन रोकने के लिये इस परियोजना को महत्त्वपूर्ण बताया है।
- **पाँच किलोमीटर की होगी पहली सुरंग:**
 - पथौरागढ़ जिले के जौलगािकांग (व्यास घाटी) से बेदांग (दारमा घाटी) तक की यात्रा शामिल पास होते हुए पूरी की जाती है, जो लगभग पूरे वर्ष बर्फ से ढकी रहती है। इस स्थान पर सड़क मार्ग का निर्माण करना बहुत कठिन है।
 - जौलगािकांग के मध्य पाँच किलोमीटर सुरंग का निर्माण वेदांग से गो एवं सपु तक 20 किलोमीटर सड़क मार्ग सहित किये जाने से बीआरओ एवं सीपीडब्ल्यूडी की ओर से निर्मित तवाघाट से बेदांग तक के मार्ग को जोड़ा जाएगा। यह जौलगािकांग एवं बेदांग की दूरी 161 किलोमीटर कम कर देगा।
- **22 किलोमीटर लंबी होगी दूसरी सुरंग:** वर्षभर बर्फ से ढके रहने वाले पैदल मार्ग सपु से तोला तक मोटर मार्ग का निर्माण भी कठिन है। सपु से तोला के मध्य लगभग 22 किलोमीटर लंबाई की सुरंग का निर्माण किये जाने से दारमा वैली और जोहार वैली एक-दूसरे से जुड़ जाएंगी।
- **30 किलोमीटर लंबी होगी तीसरी सुरंग:** पथौरागढ़ के मलिम से चमोली के लपथल तक का पैदल मार्ग भी वर्षभर बर्फ से ढका रहता है। इस भाग में भी सड़क मार्ग का निर्माण किया जाना मुश्किल है। मलिम से लपथल तक 30 किलोमीटर टनल का निर्माण होने से पथौरागढ़ की जोहार घाटी एवं चमोली का लपथल सड़क मार्ग से जुड़ जाएगा।